



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 1978/माघ 14, 1899
No. 31] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 1978/MAGHA 14, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के
रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 11-आई० टी० सी० (पी० एन०)/78

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1978

विषय:—कुसुम (कर्बी) के बीज और तेल का आयात—अप्रैल 1977—मार्च 1978 के लिये
आयात नीति।

मि० सं० आई० पी० सी०/3/3/76—कुछ विशिष्ट खास तेल/तेल बीज के सम्बन्ध में
यथा संशोधित 1977-78 अधि के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति (वा० 1) के परिशिष्ट
2 की क्रम सं० 9-20 के सामने कालम 3 के साथ पड़ी जाने वाली खण्ड-2 में क्रम सं० 15.07
के सामने निहित व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निष्पत्ति किया गया है कि परिष्कृत स्लेन्डिंग और
सीधे मानव उपभोग के लिये कुसुम तेल और कुसुम (कर्बी) बीज के आयात की स्वीकृति

वी जाये। लाइसेंस जारी करने के आधार वही हूँगे जो समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 28-आई० टी० सी० (पी० एन०)/77 दिनांक 27 मई, 1977 में संकेतिक अर्थ स्वीकृत खाद्य तेल के सम्बद्ध में लागू किये गये हैं। निर्धारित प्रपत्र एवं बिधि से आवेदन-पत्र सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को 31 मार्च, 1978 या इससे पूर्व भेज देने चाहिये।

3. तदनुसार, निम्नलिखित संशोधन अप्रैल, 1977—मार्च 1978 के लिये आयात नीति पुस्तक (का० 1) में किये जायें :—

पृष्ठ सं०	सन्दर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
27. खण्ड-2, त्रम सं० 15.07, कालम-2	निम्नलिखित अतिरिक्त मदों को जोड़ा जाये— (8) कुसुम्भ तेल (9) कुसुम्भ (कर्दी) बीज	
117. परिशिष्ट 2, मद सं० 9-20, कालम 2	निम्नलिखित अतिरिक्त मदों को जोड़ा जाये— 20 क. कुसुम्भ तेल 20 ख. कुसुम्भ (कर्दी) बीज	

का० ३ शेषाद्रि, मुख्य निर्यातक

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE No. 11-ITC (PN)/78

New Delhi, the 3rd February, 1978

SUBJECT :—Import of safflower (Kardi) seed and oil : Import Policy for April, 1977—March, 1978.

F. No. IPC/3/3/76.—Attention is invited to the provisions contained against S. No. 15.07 in Section II, read with column 3 against S. Nos. 9—20 of Appendix 2 of the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for the period 1977-78, as amended, regarding import of certain specified edible oils/oil seeds.

2. On a review of the position, it has been decided to allow import of safflower oil and safflower (Kardi) seed for refining, blending and for direct human consumption. The basis for issue of licences will be the same as applicable in respect of other permissible edible oils indicated in the Ministry of Commerce, Public Notice No. 28-ITC(PN)/77, dated the 27th May, 1977, as amended from time to time. Applications in the prescribed form and manner may be made to the licensing authorities concerned on or before the 31st March, 1978.

3. The following amendments may accordingly be made in the import policy book (Volume I) for the period April, 1977—March, 1978:—

Page No.	Reference	Details of amendments
27	Section II, S. No. 15.07, Column 2	The following additional items may be inserted : “(8) Safflower oil. (9) Safflower (Kardi) seed.”
117	Appendix 2, Item No. 9—20, Column 2	The following additional items may be inserted : “20A. Safflower oil. 20B. Safflower (Kardi) seed.”

K. V. SESHADRI, Chief Controller